



INANI MARBLES & INDUSTRIES LTD.

Ref. No. : IMIL/2020-21

THE EXECUTIVE DIRECTOR,
BOMBAY STOCK EXCHANGE LIMITED
PHIROZE JEEJEEBHoy TOWERS,
25th FLOOR, DALAL STREET,
MUMBAI-400001
TEL. : 022-2272 1234/1233
FAX : 022-2272 1919/2082/3132

Date: 03.12.2020

BSE Code: 531129

Dear Sir,

Ref: Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Sub: Submission of Notice Published in the Newspapers for updation of shareholders email id, PAN and bank mandates

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing Copies of Notice published in the Newspapers "Business Remedies" (Hindi) and "The Economic Times" (English) dated 02.12.2020 for updation of shareholders Email id, PAN and Bank mandates to ensure receipt of Annual Report, dividend and/or any other consideration and other communication timely, faster and easier and more importantly avoids fraudulent encashment warrants.

Kindly take on record.

With best regards

For Inani Marbles & Industries Limited

Madhu Bala Sharma
Madhu Bala Sharma
(Company Secretary)



Regd. Office :

Araji No. 1312, udaipur-bhilwara
highway, Near Mataji Ki Pandoli
chittorgarh (raj.) 312001-india

CIN No. : L14101RJ1994PLC008930

www.inanimarbles.com

Contact :

inani@inanimarbles.com

Mob. : +91 7733051111

BUSINESS न्यूज़ ब्रीफ

551वां प्रकाश पर्व (जन्मोत्सव) श्रद्धापूर्वक मनाया



बिजनेस रेमेडीज़/भीलवाड़ा। सिवर्व पंथ के संस्थापक गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 551 वां प्रकाश पर्व (जन्मोत्सव) विश्व भर में हॉलोलास से मनाया गया। गुरुद्वारा गुरु नानक सभा सिंधु भर में गुरुपूर्व के उपलक्ष में श्री अखण्ड पाठ साहिब की समाप्ति हुई। सचिव अष्टपाल सिंह ने बताया कि हर वर्ष इस अवसर पर विशेष कीर्तन दीवान होते हैं और गुरु का लंगर अटूट वितरित होता है लेकिन कोटिंग 19 की गाइड लाइन की पालन करते हुए इस वर्ष वह गुरुपूर्व सादियों पूर्वक मनाया गया। ज्ञानी हरमीत सिंह जी ने समूह संगठ की तरफ से श्री गुरु ग्रन्थ साहिबकी के चरणों में ऐसी अरकास की गई कि इस कोरोना महामारी से सभी को जिजात मिले एवं सम्पूर्ण मानवता का कल्याण हो, सारी सृष्टि में सुखाहाली हो। हर वर्ष इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारा साहिब में मत्या टेकने आते हैं, इसलिए संगठ पेंचले से ही अपील की गई कि सभी श्रद्धालु अपने घरों में रहकर ही अधिक से अधिक गुरुबाजी के पाठ कर श्री गुरुनानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाएं। ज्ञानी जी ने बताया कि श्री गुरुनानक देव जी का जन्म तलवंडी (लनकाणा साहिब) में सन् 1469 कार्तिकपूर्णिमा को हुआ। गुरु जी ने तीन मुख्य उपदेश दिए - (1) नाम जपो परमामारा की भंजन बंधों करो, (2) वंड छको - बांट कर खाओ, निसाहाय एवं जलरतमंद की मदद करो, (3) किरत करो - ईमानदारी एवं मेहनत से आजीविका कर्माओं। अध्यक्ष इन्हें प्रशंसनी दी जाती है कि कोटिंग 19 के कारण गुरुद्वारा साहिब में आवाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष इन्टरियोर दिये गये। मुँह पर मास्क एवं हाथ सैनिटाईक कार्यालय ही प्रेषण दिया गया। दर्शनार्थी आवाले श्रद्धालुओं के प्रेषण एवं निकासी के द्वारा अलग-अलग रस्ते गये ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ी हो। ज्ञानी जी ने बताया कि इस अवसर पर सभी ने एक-दूसरे को गुरु पर्व की बधाई दी एवं अपने घरों में दीप माला, रोशनी कर अपनी सुखी प्रकट की।

क्रिएयर फाउंडेशन द्वारा 2000 फूड पैकेट्स वितरित



बिजनेस रेमेडीज़। क्रिएयर फाउंडेशन द्वारा चालाइ गई मूहिम जिसमें हर गरीब व असाहाय परिवार व महिलाओं को पुरे माह में फूड पैकेट्स बाटे जायेंगे। गुरु नानक जयती के अवसर पर जयपुर शहर की कच्ची बिस्तरियों व हॉस्पिटल में फूड पैकेट बांटकर उत्तम बनाया गया। जे. के. लोन हॉस्पिटल, महिला धिक्रतसात्य संगठन, एस. एम. एस. हॉस्पिटल, व जानवा हॉस्पिटल, सेवी हॉस्पिटल, कुष्ठ रोग अश्रम, के सभी मरीजों के परिवार जनों व पौर्तियां महिलाओं व बच्चों में पैकेट्स वितरित किये गये। इसी के साथ क्रिएयर फाउंडेशन द्वारा गुरुनानक साहिब के सदेश सभ बिल बाट के खाये और कोई भूमत वा सोयें को दिखाऊंकर पुरे माह में अमल जिया जायेगा। इसी तरह फूड पैकेट्स वितरित किये गये।

छठे एम एल मेहता मेमोरियल व्याख्यान का आयोजन 7 दिसंबर को

जयपुर। प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और सामाजिक कार्यकर्ता एमएल मेहता की स्मृति में एचरीएम रीपा, जयपुर तथा एमएल मेहता फाउंडेशन की ओर से छठे मेहता मेमोरियल व्याख्यान का आयोजन 7 दिसंबर सोमवार शाम 6:00 बजे किया जाएगा। एचरीएम रीपा के महानिवेशक संस्कृप्त वर्मा ने बताया कि यह कार्य म वर्षुअल प्लेटफॉर्म के जरिये आयोजित होगा, जिसमें केन्द्र सरकार में अतिरिक्त सचिव तथा नेतृत्व सेंटर फॉर गुरु गवर्नेंस के महानिवेशक वी श्रीनिवास 'गुरु गवर्नेंस प्रेविट्स' दिया गया व्याख्यान देंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य सचिव निरेजन आर्य करेंगे।

आवश्यकता
बिजनेस रेमेडीज़ दैनिक समाचार पत्र को कोटा, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली में खबरों एवं विज्ञापन कार्य हेतु प्रतिनिधि की आवश्यकता है।

सम्पर्क करें

बिजनेस रेमेडीज़

63/118, ग्रीष्म पथ, मानसरोवर, जयपुर - 302020

0141-2785686, 9929106227

E-Mail: remediesbusiness@gmail.com

businessremedies@yahoo.com

अंतर की पीड़ि

मुझे दिखाये गए हिन्दुस्तान की यो गलियां जहां मुस्कराती इलाली रही बचपन की यो कोमल कलियां, दूध, दही और अमरकृत से होता था भीर में कलेक्टर मैं बचपन की खुशियों से जुड़ा था दो दिनों का खण्डन। आज जहरिया खाना और शर्मनाक बचपन से जुड़ा था वासन के भ्रूंगों को भड़काने की भड़कानी वहां, चांदों और खत्तरा ही खत्तरा चोर लुटेरे कान्तिने होंगी, नहीं, इंसाल की नसों में खूब का करता करता था, बुजुर्गों का साया, बरगद पीपल की छाया, बच्चों के साथ घर में मचलते घर में छेट-छेटे चौपालों की अद्यता तथा तालाशी है उस अंतिम तो वहां आपस में बैठे गुन्हाजारे सर भरे गीत को, कच्चे ग्होरे थे पैकेट्स के लिए खुशी-खुशी मरता था (कुबाब) हाथ जमाना क्यों अंत ले रहा है पंचम आरे की ये कासक किसी एक की नहीं है पूरे हिंदू के गुरुभियों की मुझे चाहिए मेरा यो लाला हिन्दुस्तान जहां हर रोज आते थे मेहमान, सबका होता था सम्मान गली-गली में झलकता था बुद्ध खानापान, सुधारा हुआ खानादान। वित्तनशीला वसुमति जी मा.सा.

बिजनेस रेमेडीज़

प्रादेशिक | मेट्रो सिटी विशेष

राजस्थान फर्स्ट आटोमेटिक कुलिंग पैड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शुभारंभ

बिजनेस रेमेडीज़/ जयपुर। कॉर्सोट इंटरनेशनल आईएनसी कम्पनी द्वारा GLO AIRE ब्रांड से राजस्थान का पहला ऑटोमेटिक Honey Comb Pad के उत्पादन का प्लांट जयपुर के बगरु इंडस्ट्रियल



विनय एवं सुमित गोदा ने बताया वर्तमान में Honey Comb Pad का सम्पूर्ण व्यवसाय चीन से आयती है और अधिक से अधिक गुरुबाजी के पाठ कर श्री गुरुनानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाएं। ज्ञानी जी ने बताया कि हर वर्ष इस अवसर पर विशेष कीर्तन दीवान होते हैं और गुरु का लंगर अटूट वितरित होता है लेकिन

आयात चाहना से किया गया वर्तमान में बहुत कम होगा वही दूसरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आयात पर निर्भर था, यदि पिछले वर्षों की बात कि जाए तो लगभग 70 से 80 कटेकर का

से जहाँ एक ओर चाहना से इम्पोर्ट कम होगा वही दूसरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आयात पर निर्भर था, यदि पिछले वर्षों की बात कि जाए तो लगभग 70 से 80 कटेकर का

प्लांट कि उत्पादन क्षमता 2500 फीट प्रतिदिन की है।

राजस्थान में उद्योग व व्यापार जगत को बढ़ावा देने और वर्यों से स्टार्टअप के लिए एमएसएमई डिपार्टमेंट द्वारा कई स्कीमों के बहुत बहुई हैं जैसे CGTMSE, RIPS आदि ताकि उद्योगों को सिसिसी के माध्यम से सहायता दी जा सके। कोरोना काल के दौर में ग्लोबल एयर कंपनी द्वारा एयर कूलिंग पेड आटोमेटिक प्लांट के लिए एक विशेष विभाग बनाई गई है जो इस वर्ष व्यवसाय के लिए एक विशेष विभाग बनाए रखेगा।

वर्चुअल ऑटोमोबाइल आर्ट फेरिट्वल 'कार्टिस्ट फेरिट्वल 2020' का समापन



बिजनेस रेमेडीज़। वर्चुअल ऑटोमोबाइल आर्ट फेरिट्वल का समापन को आयोजित किया गया। इन्हें कैटिंग-19 के इस चुनौतीपूर्ण समय में कार्टिस्ट ने बाजूद कलाकारों को कार्टिस्ट फेरिट्वल का माध्य प्रदान करते हुए अपनी विशेषता को आगे बढ़ाया है।

कार्टिस्ट के संस्थानक फिल्म जागीर के द्वारा वर्षांत रुपयोग से विशेषता को आयोजित किया गया। इसी के साथ क्रिएयर फाउंडेशन द्वारा गुरुनानक साहिब के सदेश सभ बिल बाट के खाये और कोई भूमत वा सोयें को दिखाऊंकर पुरे माह में अमल जिया जायेगा। इसी तरह फूड पैकेट्स वितरित किये गये।

छठे एम एल मेहता मेमोरियल व्याख्यान का आयोजन 7 दिसंबर को

जयपुर। प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और सामाजिक कार्यकर्ता एमएल मेहता की स्मृति में एचरीएम रीपा, जयपुर तथा एमएल मेहता फाउंडेशन की ओर से छठे मेहता मेमोरियल व्याख्यान का आयोजन 7 दिसंबर सोमवार शाम 6:00 बजे किया जाएगा। एचरीएम रीपा के महानिवेशक संस्कृप्त वर्मा ने बताया कि यह कार्य म वर्षुअल प्लेटफॉर्म के जरिये आयोजित होगा, जिसमें केन्द्र सरकार में अतिरिक्त सचिव तथा नेतृत्व सेंटर फॉर गुरु गवर्नर्स के महानिवेशक वी श्रीनिवास 'गुरु गवर्नर्स प्रेविट्स' दिया गया व्याख्यान देंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य सचिव निरेजन आर्य करेंगे।

जयपुर। प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और सामाजिक कार्यकर्ता एमएल मेहता की स्मृति में एचरीएम रीपा, जयपुर तथा एमएल मेहता फाउंडेशन की ओर से छठे मेहता मेमोरियल व्याख्यान का आयोजन 7 दिसंबर सोमवार शाम 6:00 बजे किया जाएगा। एचरीएम रीपा के महानिवेशक संस्कृप्त वर्मा ने बताया कि यह कार्य म वर्षुअल प्लेटफॉर्म के जरिये आयोजित होगा, जिसमें केन्द्र सरकार में अतिरिक्त स

around \$7 such as so-
tchup, mas-
s in the
eriod com-
in the full
as, how-
etain the

Processed fruits and juices saw a 40% on year decline in imports in April-September while those of cocoa products fell 23.7% on-year.

"Overall imports had declined as ports were closed and clearances were slow in the first half of the year. Moreover, certain items like processed juices come from

the government too was disengaging with Beijing then," said Bipin Sapra, part-

India's total imports on year in April-September to \$148.69 billion.

INANI MARBLES & INDUSTRIES LIMITED

Reg. Office: Araji No. 1312, Udaipur-Bhilwara Highway, Near Mataji Ki Pandoli, Chittorgarh-312001 (Rajasthan)
Email ID: inanimarble@gmail.com Website : www.inanimarbles.com
CIN: L14101RJ1994PLC008930

Notice of 26th Annual General Meeting to be held through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means- Updation of Email Id, PAN and Bank Mandate of Shareholders

Notice is hereby given that the 26th Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held on Wednesday 30th December, 2020 at 11.00 A.M. IST through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") the businesses set out in the Notice of AGM. In Compliance with the applicable provisions of the Companies Act 2013 read with their circular no. 14/2020 dated 8th April 2020, no. 17/2020 dated 13th April 2020 no. 20/2020 dated 05 May 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs and circular no. SEBI /HO/ CFD/CMD/ CIR/P/2020/79 12th May 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), permitting the holding of AGM through VC/ OAVM without physical presence of members at a common venue. Members will be provided with a facility to attend the AGM through electronic platform provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL).

The circular 20/2020 has also dispensed with the printing and dispatch of annual reports to shareholders and the same shall be sent only by email to the members of the Company. Further SEBI vide its circular dated 12th May 2020 has also dispensed with the requirement of sending physical copies of annual report to shareholder for listed entities who conduct their AGMs during the calendar year 2020(i.e. till 31st December 2020) and also prescribed that the requirement of sending dividend warrant or cheque will apply upon normalization of postal services and listed entities shall endeavor to obtain bank account details of shareholders and use the electronics modes of payment.

In view of the above, we urge the shareholders for registration and/or updation of their email id, Permanent Account Number (PAN) and Bank mandate with the Company to ensure receipt of Annual Report, dividend and/or any other consideration and other communication timely, faster and easier and more importantly avoids fraudulent encashment warrants.

Accordingly, to update the details with the Company, the following procedure may be followed:

S.No.	Physical Holding	Demat Holding
1.Email ID & PAN	An email requesting for updation/registration of mail id with a copy of PAN card and mentioning folio number may be send to the Company's email id at inanimarble@gmail.com or Company's Registrar and Share Transfer Agent email id at ankit_4321@yahoo.com	Update the email id/ PAN through your depository Participant as per the process advised by your Depository Participant
2.Bank Mandate	An email requesting for updation/registration of bank Mandate with a copy of PAN Card, Cancelled Cheque with name printed on cheque, Copy of Share Certificate, or any letter received from Company or dividend warrant where folio number is mentioned may send to the Company's mail id at inanimarble@gmail.com or Company's Registrar and Share Transfer Agent email id at ankit_4321@yahoo.com	Update the bank Mandate through your Depository Participant

Place: Chittorgarh

For Inani Marbles & Industries Limited

Date: 30.11.2020

Sd/- Madhu Bala Sharma

COMPANY SECRETARY

Insurance Corporation of India

Department, Central Office, 3rd floor, Yogakshema,
Mumbai Marg, Mumbai 400021.

Bid Notice

Invites RFP for Implementation Advisor for Actuarial
Act/2021/IA-202011/RFP

Submission Date 24.12.2020, 23.30 hrs IST (Online)

Criteria and Bid timelines are placed on our website:
<http://www.tenderwizard.com/LIC>.
If any, would be hosted on website only.

CHIEF (ACTUARIAL)

MYSORE PAPER MILLS LTD

(Government of Karnataka Undertaking)

020-21/001/CALL-2 Date 26.11.2020

INVITING TENDER (Call-2)

Invitation for Lease of The Mysore Paper Mill, Bhadravathi, Shivamoga District, on De-Operate-Transfer Basis

All interested eligible Applicants for the mill. MPM has adopted a single selection of the bidder. The bidding document Information Memorandum may be obtained from E-Procurement Website of the Government of Karnataka (GoK) viz., <https://www.gok.kar.nic.in> w.e.f 26.11.2020. The last date of submission is 11.01.2021.

Managing Director, Mysore Paper Mills Ltd, Devaraj Urs Road (Race Course Road), 0001, Karnataka. Tel: +91 80 53478; Email id: cmd@mpm.co.in
Karan, K., Infrastructure Development Limited (iDeCK), 9/7, K.C.N.Bhavan, Nagar Extension, Off Race Course Road, Tel: +91 80 43448000, Fax: +91 80 43448000, Email: karan.K@ideck.in.

Sd/- Tender Inviting Authority
Mysore Paper Mills Limited

187 CALL APATHAMITRA ON 14-110

8 Free
Low Physical
Distancing

